



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 207]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 3, 2002/वैशाख 13, 1924

No. 207]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 3, 2002/VAISAKHA 13, 1924

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2002

सं. 4/2002-सेवा कर

सा. का. नि. 325(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 5/96-सेवा कर [सा.का.नि. 174(अ)] तारीख 3 अप्रैल, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) परन्तुक में खंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(vi) श्री लंका से संबंधित क्र.सं. 97, दूतावास और मिशन के उन सदस्यों के, जो राजनयिक रैंक धारित किए हुए हैं, टेलीफोनों की बाबत लागू होगा”;

(ख) अनुसूची में, क्र.सं. 96 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1	2
“97	श्री लंका”

[फा. सं. 149/3/2001-सीएक्स. 4]

मिस एस. कटियार, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 174(अ), तारीख, 3 अप्रैल, 96 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात्पूर्ती संशोधन सा.का.नि. सं. 542(अ), तारीख 26 नवम्बर, 96, सा.का.नि. सं. 76(अ), तारीख 14 फरवरी, 97, सा.का.नि. सं. 271(अ), तारीख 23 मई, 97, सा.का.नि. सं. 474(अ), तारीख 22 अगस्त, 97 और सा.का.नि. सं. 503(अ), तारीख 3 जुलाई, 2001 और सा.का.नि. सं. 213 (अ), तारीख 19 मार्च, 2002 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd May, 2002

No. 4/2002—SERVICE TAX

G.S.R. 325(E).—In exercise of the powers conferred by Section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1944), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 5/96-Service Tax [G.S.R. 174(E)] dated 3rd April, 1996 namely :—

In the said notification :—

(a) in the proviso after clause (v), the following clause shall be inserted, namely :—

“(vi) in respect of Serial No. 97 relating to Sri Lanka, shall be applicable in respect of telephones of the Embassy and members of the mission holding diplomatic rank only”;

(b) in the schedule, after serial number 96 and the entry relating thereto, the following shall be inserted namely :—

1	2
“97	Sri Lanka”

[F. No. 149/3/2001 CX. 4]

MISS S. KATTIYAR, Under Secy.

Not Note : Principal Notification was published in the Gazette of India vide G.S.R. No. 174(E) dated 3rd April, 96 and was subsequently amended by G.S.R. No. 542(E) dated 26th November, 96, G.S.R. No. 76(E) dated 14th February, 97, G.S.R. No. 271(E) dated 23rd May, 97, G.S.R. No. 474(E) dated 22nd August, 97 and G.S.R. No. 503(E) dated 3rd July, 2001 and G.S.R. No. 213(E) dated 19th March, 2002.